



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RAMESHWAR SINGH		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35570300008484
MANAURA KHARAHAN		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1804230529
DEHRI ONSONE		कन्स्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	RXG075235
821305		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35570200000545
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DEHRI ONSONE
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOS	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	- Pledge to F.F. R.O.D. WORKS DIVISION - BIKRAMHAJ
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	FDR18042023	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अव्यस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
पैन नंबर / PAN No.	AFUPS1050H		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1052000	18-04-2023	7.55	0 Months 399 Days	21-05-2024	1052000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्ति को द्वाारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लगौगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम. ii). करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लगौगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1.5% कम। करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii). Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	--

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RAMESHWAR SINGH MANAURA KHARAHAN DEHRI ONSONE 821305 INDIA		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35570300008817
		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1408235243
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	RXG075235
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35570200000545
		शाखा का नाम/Branch Name	DEHRI ONSONE
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	Pledge to - E. E. RWD WORKS Division Biramgarh
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	14082023		
पैन नंबर / PAN No.	AFUPS1050H	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		


जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
944000	14-08-2023	7.75	0 Months 399 Days	16-09-2024	1026436

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज।
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं।
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (जदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज।
7. नैर प्रविष्टि जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।
1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. Automatic Renewal Clause.
3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. A fresh 15G/15H/15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
6. Premature Withdrawal Clause.
7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RAMESHWAR SINGH

MANAURA KHARAHAN
DEHRI ONSONE
821305
INDIA

सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35570300008818
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1408235358
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	RXG075235
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35570200000545
शाखा का नाम/Branch Name	DEHRI ONSONE

योजना / Scheme

BARODA TIRANGA PLUS DEPOSIT

नामांकन / Nomination

Y

नामिती पंजीकरण क्रमांक /
Nominee Registration No.

14082023

पैन नंबर / PAN No.

AFUPS1050H

परिचालन पद्धति / Mode of
Operation

SELF

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)

Bridge to - E.E
RWD works Division
Bikramganj

अभिभावक का नाम

(यदि खाताधारक अवयस्क है) /
Guardian Name
(If a/c holder is minor)

लियन चिह्नित / Lien Marked

N

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1314000	14-08-2023	7.75	0 Months 399 Days	16-09-2024	1428747

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है।

2. स्वतः नवीकरण क्लॉज।

i) यदि अवधि अवधि न दिए हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देने तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा।

ii) कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देने तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इसकी अवधि के लिए किया जाएगा।

3. फॉर्म 15 जी और 15एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।

4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/ 15 एच/ 15 एए (जैसे लागू हो) प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।

5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किया जाएगा।

6. परिपक्वता आहरण क्लॉज।

i) रु. 1 करोड़ से कम की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1% बंद का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि के जारी होने की तिथि पर लागू कार्ड दर से 1% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

ii) रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशियों को समयपूर्व बंद करने पर 1.5% बंद का प्रावधान है अर्थात् इसी जमा राशि पर बैंक में रखी जाने वाली अवधि के लिए लागू कार्ड दर से 1.5% कम ब्याज का भुगतान किया जाएगा। रु. 1 करोड़ और इससे अधिक की जमा राशि को समय पूर्व आहरण के लिए जमा राशि के आहरण से कम से कम 31 दिन पहले बैंक को सूचना दी जानी चाहिए।

7. गैर प्रतिबंधित जमा के अंतर्गत - परिपक्वता पूर्व आहरण की अनुमति नहीं है।

1. Rate of Interest is in percentage per annum.

2. Automatic Renewal Clause::

i) For Deposits issued for a period of 1 year and above. Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year. Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.

3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.

4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year. prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.

5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)

6. Premature Withdrawal Clause

i) Premature withdrawal of deposit less than Rs. 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit for the period for which deposit has remained with Bank.

ii) Premature withdrawal of deposit for Rs. 1 crore and above will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit. for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit Rs. 1 crore and above, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

7. In case of "NON-CALLABLE DEPOSIT" - Premature withdrawal not allowed

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature





बैंक ऑफ बड़ौदा
Bank of Baroda
India's International Bank

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

RAMESHWAR SINGH		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35570300008483
MANAURA KHARAHAN		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR1804230504
DEHRI ONSONE		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	RXG075235
821305		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35570200000545
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	DEHRI ONSONE
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA PLUS DEPOS	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	Pledge to E.F. R.W.D. WORKS DIVESTION - BIKRAMGANJ
नामांकन / Nomination	Y		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	FDR18042023	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
पैन नंबर / PAN No.	AFUPS1050H		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1028000	18-04-2023	7.55	0 Months 399 Days	21-05-2024	1028000

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause :
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं.	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause :
i) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम.	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

